

## खुले खाद्य पदार्थों (लूस फूड्ज) में पाए जानेवाले एलर्जन (वे पदार्थ जो शारीरिक प्रणाली को अस्थीकार्य हों) के बारे में जानकारी

लघु तथा मध्यम खाद्य पदार्थ कारोबारों के लिए नए फूड इन्फोरमेशन रेग्युलेशन्स (खाद्य पदार्थ सूचना विनियम) विषयक सलाह।



# विषय-सूची

परिचय	1
खुले खाय पदार्थों के लिए नए नियम	3
14 एलर्जेन्स	5
एलर्जेन विषयक जानकारी किस तरह प्रस्तुत करें	9
गंभीर एलर्जिक रिएक्शन की परिस्थिति संभालना	13
एलर्जेन विषयक जानकारी के संबंध में बरतना: आपकी शीघ्र जाँच-सूची	14
अधिक जानकारी	16

# परिचय

खाय पदार्थों के कारोबारों द्वारा अपने ग्राहकों को अवश्य पेश की जाने वाली जानकारी में बड़े बदलाव किए गए हैं।

13 दिसंबर 2014 के दिन दी ईयू फूड ईन्फोरमेशन फोर कंज्यूमर्ज रेग्युलेशन (ग्राहकों के लए EU खाय सूचना विनियम) (EU FIC) प्रवृत्त हुआ। ये यूरोपीय नियम यूके में फूड ईन्फोरमेशन रेग्युलेशन्स (खाय सूचना विनियम) 2014 (FIR) के ज़रिए लागू किए जाते हैं।

FIR आप और आपके स्टाफ की ओर से अपने ग्राहकों को जानकारी प्रस्तुत करने के तरीके को बदल रहा है। FIR विषयक अधिक जानकारी आप यहाँ से पा सकते हैं:  
<http://food.gov.uk/science/allergy-intolerance/label/>

## यह पुस्तिका किसके लिए है?

यह पुस्तिका आपके लिए है यदि आप, उदाहरण के तौर पर:

- काफे या होटल-रेस्टोरेन्ट में खाना उपलब्ध कराते हैं
- आप खुदने लपेटे हुए खाय पदार्थ, जैसे कि ब्रेड रोल, सैंडविच, केक, डेली उत्पाद अथवा तो अन्य बगैर पैक किए हुए खुले खाय पदार्थ बेचते हैं

- संस्थागत केटर्रिंग पेश करते हैं जैसे कि स्कूलों, अस्पतालों में एवं केअर होम्स में

खुले खाय पदार्थ बनाने के दौरान आप अपनी व्यंजन विधि (रेसपि) में शायद पहले से पैक की हुई खाय सामग्री का प्रयोग करते होंगे। पहले से पैक किए हुए खाय पदार्थों की सामग्री सूची के अंतर्गत एलर्जनिक सामग्रियों पर विशेष जोर दिया जाएगा।

तथापि, याद रहे कि कुछ खाय पदार्थ (जैसे कि टिन्न्ड फूड या ड्राइड फूड) की उपयोगिता दीर्घकालीन होती है। यह संभव है कि दिसंबर 2014 के बाद भी कुछ दो तीन साल तक आप इस प्रकार के उत्पादों पर दोनों प्रकार के लेबलों का प्रयोग देख पाएंगे।


यदि आप पहले से पैक किए हुए खाय पदार्थों और उनमें शामिल एलर्जनिक सामग्रियों को पहचानने के बारे में अधिक जानकारी चाहें तो 'एलर्जी: वॉट टू कंसिडर वेन लेबलिंग फूड' (एलर्जी: खाय पदार्थों पर लेबल लगाने में क्या-क्या ध्यान में रखना चाहिए) नामक पत्रिका देखें जो यहाँ पर उपलब्ध है:

<http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/publication/allergy-labelling-prepacked.pdf>

## फूड एलर्जी का महत्व क्यों है

एलर्जिक रिएक्शन से लोग अत्यंत बीमार हो सकते हैं और कभी कभी मौत का शिकार भी हो सकते हैं। परंतु, फूड एलर्जी का कोई इलाज नहीं है। बीमार हो जाने से बचने का एक मात्र रास्ता यही है कि वे ऐसे खाद्य पदार्थ न खाएं जिनके प्रति वे एलर्जिक हैं।

यदि आप खाद्य पदार्थों के साथ काम करते हैं तो फूड एलर्जी को गंभीर रूप से लेना आपके लिए अति आवश्यक है। इन नए FIR नियमों के अनुसार, आप जो कुछ भी खाने की चीज़ें बनाते हैं या परोसते हैं, उनकी सामग्री के बारे में एलर्जेन विषयक सही जानकारी अपने ग्राहकों को प्रदान करना आपकी कानूनी जिम्मेवारी बनती है।



### महत्वपूर्ण


#### लूस फूइस् (खुले खाद्य पदार्थों) की व्याख्या

प्रीपेक्ट फूड्ज (पहले से पैक किए हुए खाद्य पदार्थ) का मतलब उन खाद्य पदार्थों से है, जो बिक्री के पूर्व ही पैकेजिंग में डाले गए हों, उस समय निम्नलिखित सभी बातें लागू होती हैं:

- खाद्य पदार्थ पैकेजिंग में पूरी तरह से या अंशतः लिपटा हुआ है
- पैकेजिंग खोले या बदले बिना खाद्य पदार्थ को बदला नहीं जा सकता
- खाद्य पदार्थ उत्पाद जो पब्लिक को या किसी कैटरिंग संस्थान को बिक्री किए जाने के लिए तैयार हैं। इसके इलावा सबकुछ लूस फूड्ज (खुले खाद्य पदार्थ) अथवा पहले से पैक नहीं किए हुए खुले खाद्य पदार्थ के वर्णन में शामिल हैं। इनमें वे खाद्य पदार्थ शामिल हैं, जो बिक्री के स्थान पर ही पैकेजिंग में लपेटे जाते हैं, जैसे कि सैंडविच बार में, बेकरी या डेलिकेटेसन काउंटर पर।

**कृपया नोट करें:** इस पत्रिका हेतु, हम ‘लूस फूड’ नाम का प्रयोग उन सभी खाद्य पदार्थों के लिए करेंगे, जो खुले रूप में बेचे जाते हैं। इनमें शामिल हैं, बिना पैकेजिंग के खाद्य पदार्थ या वे खाद्य पदार्थ जो बिक्री के स्थान पर ही पैकेजिंग में लपेटे जाते हैं (सीधे बिक्री हेतु पहले से पैक किए हुए)।

# खुले खाय पदार्थ के बारे में नए नियम



EU के कानून में 14 एलर्जेन सूचित किए गए हैं जिनको पहचानना आवश्यक है, यदि किसी व्यंजन में उनका प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब है कि सभी खाय कारोबारों को उनके द्वारा बिक्री या प्रस्तुत किए जाने वाले खाय पदार्थों में प्रयोग की हुई एलर्जिक सामग्री के बारे में जानकारी देना ज़रूरी है।

खुले खाय पदार्थ पेश करने वाले कारोबारों जैसे कि सुपरमार्केटों के फूड काउंटर, डेलिकेटेसनों, रेस्टोरेन्ट एवं टेकअवे के लिए भी नयी अपेक्षाएं हैं।

खुले खाय पदार्थ पेश करने वाले कारोबार होने के नाते आपको अपने मेन्यू में शामिल हर खाय पदार्थ जिसकी सामग्री में उन 14 एलर्जेन में से किसी भी एलर्जेन का प्रयोग हुआ हो, उसके बारे में जानकारी प्रस्तुत करना ज़रूरी होगा।

## ये जानकारी किस तरह से प्रस्तुत की जाए

इन एलर्जेनों का विवरण किसी जाहिर स्थान पर स्पष्ट रूप से सूचित करना होगा, जैसे कि:

- मेन्यू कार्ड
- चाक बोर्ड
- इन्फोरमेशन पैक

यदि यह अग्रिम तौर पर प्रस्तुत नहीं की जाती, तो आपको लिखित रूप में या मौखिक रूप में दिशासंकेत करना होगा कि इसे कहाँ पाया जा सकता है।

## मेन्यू एग सैंडविच

शामिल है:  
अंडे, गेहूँ, सोय और दूध

## ट्यूना सलाद

शामिल है:  
मछली, सेलरी एवं मस्टर्ड

## चिकन कुसकुस

शामिल है  
गेहूँ और सेलरी

यदि एलर्जेन विषयक जानकारी मौखिक तौर पर दी जाती है, तो यह मुमकिन होना चाहिए कि:

- अन्य लोगों से इस जानकारी की जाँच की जा सके (सत्यापन योग्य)
- ये पुष्टिकरण द्वारा बिलकुल सही सिद्ध की जा सके
- हर बार ठीक वही जानकारी पेश की जाए (सुसंगत)

इसके बारे में अधिक जानकारी आप 'हात दू प्रोवार्ड एलर्जेन इन्फोरमेशन' (एलर्जेन विषयक जानकारी किस तरह से पेश की जाए) पत्रिका के पृष्ठ 9 पर पा सकेंगे।

## बिक्री के अन्य तरीके

यदि खाय पदार्थ दूर से बेचे जा रहे हैं, जैसे कि टेलिफोन पर टेकअवे के ऑफर द्वारा, तो एलर्जेन विषयक जानकारी इस प्रकार देना ज़रूरी है:

- खाय पदार्थ की खरीदगी संपन्न होने से पूर्व (ये लिखित या मौखिक किसी भी तरह से दी जा सकती है)
- खाय पदार्थ पहुँचाते समय (ये लिखित या मौखिक किसी भी तरह से दी जा सकती है)

## महत्वपूर्ण

### अनभिज्ञता का बहाना स्वीकार्य नहीं है

कानून में जो बदलाव आया है, उसका अर्थ है कि अब आप यह नहीं कह सकेंगे कि आप जो खाने की चीजें परोस रहे हैं उसमें कौन से एलर्जेन हैं, यह आपको मालूम नहीं है। आप यह भी नहीं कह सकेंगे कि आप जो खाने की चीजें परोस रहे हैं, उन सब में कोई एलर्जेन मौजूद हो सकता है।

आप जो कुछ भी खाय पदार्थ प्रस्तुत करते हैं, उसमें क्या-क्या है ये आपको मालूम होना आवश्यक होगा।



## 14 एलर्जेन

ऐसे 14 एलर्जेन हैं, जिनका सामग्री के तौर पर प्रयोग किए जाने पर घोषित करना आवश्यक है। ये एलर्जेन क्या हैं एवं वे कौन-कौन से खाद्य पदार्थों में मौजूद हो सकते हैं, ये निम्नलिखित सूची में निर्दिष्ट हैं।

सलेरी -

अजमोद /

अजवायन



इसमें शामिल हैं, अजमोद के डंठल, पत्ते और बीज तथा सलेरीएक।

ये अक्सर अजमोद के नमक में, सलादों में, कुछ मॉस के उत्पादों

में, सूप में और स्टॉक क्यूब में पाया जाता है।

लस (ग्लूटेन)

युक्त अनाज



इनमें शामिल हैं गेहूँ (जैसे कि स्पेल्ट तथा खोरासान व्हीट /


कामुट, राई, जौ और जई (ओट्स)। ये अक्सर आटे से युक्त खाद्य

पदार्थों में पाए जाते हैं, जैसे कि कुछ बेकिंग पाउडरों में, लपसी, ब्रेडकम्ज, ब्रेड, केक, कुसकुस, मॉस के उत्पादों, पास्ता, पेस्ट्री, सॉस, सूप एवं आटा छिड़के हुए खाद्य पदार्थों में। अनाज की मौजूदगी प्रकट करना आवश्यक होगा। परंतु इसके साथ साथ ग्लूटेन की उपस्थिति घोषित करना या नहीं, ये आपकी मरज़ी है।

क्रस्टैशन (कड़े

खोल वाले

जलजीव)




इनमें शामिल हैं केकड़े, झींगा, झींगे और स्केम्पी। यह अक्सर

थाई करी और सलादों में प्रयोग किए गए शूप झींगा (श्रींप) पेस्ट में


मौजूद होता है।

अंडे



ये अक्सर केक में, कुछ मॉस उत्पादों में, मेयोनीज़, मूस, पास्ता, कीश, सॉस तथा अंडे के लेप से ब्रश किए हुए या ग्लेज़ किए हुए खाय पदार्थों में पाए जाते हैं।

मछली



ये अक्सर कुछ फिश सॉसों में, तथा पिज़्ज़ा चाट/चटनियाँ, सलाद ड्रेसिंग, स्टॉक क्यूब्स तथा वूस्टर सॉस में पाई जाती हैं।

ल्यूपिन



इनमें शामिल हैं ल्यूपिन के बीज और आटा और यह कुछ प्रकार के ब्रेड, पेस्ट्री एवं पास्ता में पाया जाता है।

दूध



यह मख्खन, पनीर/चीज़, क्रीम, मिल्क पाउडर और दही/योगर्ट में पाया जाता है। इसका प्रयोग अक्सर दूध से ग्लेज़ खाय पदार्थों, सूप के पाउडरों में और सॉस में किया जाता है।

मोलस्क (सीप, घोंघे)



इनमें शंबुक सीपी (मसल), भूमि के घोंघे (लेन्ड स्नैल्स), समुद्रफेनी (स्कवीड) और समुद्री घोंघे (व्हेल्क्स) शामिल हैं। ये अक्सर ऑईस्टर सॉस में या फिश स्ट्रू में, सामग्री के तौर पर पाए जाते हैं।

मस्टर्ड (सरसों, राई)



इसमें तरल मस्टर्ड, मस्टर्ड पाउडर और मस्टर्ड के दाने/राई शामिल हैं। ये अक्सर ब्रेड, करी, मेरीनेड, मॉस उत्पाद, सलाद ड्रेसिंग, सॉस और सूप में पाए जाते हैं।

मेवे (नट्स)



इनमें शामिल हैं बादाम, हेजलनट्स, अखरोट, काजू, पिकैन नट्स, ब्राजील नट्स, पिस्ता, मेकेडैमिया या क्वीन्स्ट्रेन्ड नट्स। ये ब्रेड, बिस्किट, क्रेकर्स, डिज़र्ट, आईसक्रीम, मार्जिपैन (बादाम का पेस्ट), नट्स के तेल और सॉस में पाए जाते हैं। एशियाई व्यंजनों जैसे करी या स्टर फ्राई में अक्सर पिसे, कुचले या पतली पत्तियों में कटे हुए बादाम का प्रयोग किया जाता है।

### मूँगफली



यह बिस्किट, केक, करी, डिज्जर्ट, और साटेय सॉस जैसे सॉसों में पायी जाती हैं। तथा मूँगफली के तेल और मूँगफली के आटे में भी पायी जाती है।

### तिल



यह ब्रेड, ब्रेडस्टिक्स, हूम्स, तिल के तेल और ताहिनि (तिल के पेस्ट) में पाए जाते हैं।

### सोया



यह बीनकर्ड, ऐडमामे बीन्स, मीसौ पेस्ट, सोया प्रोटीन की विविध चीजों में, सोया के आटे में या टोफू में पाया जाता है। इसका प्रयोग कुछ डिज्जर्टों में, आईसक्रीम में, माँस के उत्पादों में, सॉसों में एवं शाकाहारी उत्पादों में किया जाता है।

### सल्फर

### डाईऑक्साईड



इसका प्रयोग अक्सर मेवे, माँस के उत्पाद, सॉफ्ट ड्रिंक्स और सब्जियों एवं वाईन और बीयर में परिरक्षक (प्रिज़र्वेटिव) के तौर पर किया जाता है।

## सामग्री के बारे में जानकारी का रिकॉर्ड रखना

व्यंजन पकाने की तैयारी करते समय यह सोच लें कि अपनी रेसपि में आप किन सामग्री का प्रयोग करेंगे, और फिर हर एक व्यंजन में कौन कौन सी सामग्री का प्रयोग हुआ है, इसको ध्यानपूर्वक नोट कर लें।

यदि आप प्रीपेकड़ फूड्ज को अपनी रेसपि में सामग्री के तौर पर अथवा तो भोजन के तौर पर प्रयोग कर रहे हैं, तो कृपया याद रखें कि कुछ उत्पादों की शेल्फ लाइफ दीर्घकालीन होती है। यह संभव है कि दिसंबर 2014 के बाद भी कुछ सालों तक आप इन उत्पादों पर दोनों प्रकार के (पुराने और नए) लेबलों का प्रयोग देखेंगे। लेबल पढ़ना हमेशा याद रखें।

कौन से व्यंजनों में एलर्जन मौजूद हैं, यह पहचानने में सहायता के लिए:

- यह सुनिश्चित करें कि आपके किचन का स्टाफ हर बार उन्हीं रेसपियों का प्रयोग करते रहें जो नियमित तौर पर करते रहे हैं।
- प्रीपेकड़ फूड्ज जैसे कि सॉस, डिजर्ट इत्यादि के सामग्री की जानकारी के लेबलों की एक कापी रख लें।
- जहाँ तक हो सके, सामग्रियों को उनके मूल डिब्बों में रखें, या लेबल की जानकारी की कापी किसी केन्द्रीय स्थान पर (कागज पर या इलेक्ट्रॉनिक रूप में) रख लें।
- यह सुनिश्चित करें कि जो सामग्री थोक

में डेलिवर होती हैं और फिर बाद में छोटे डिब्बों में अंतरित या संग्रह की जाती हैं, उन पर सुस्पष्ट लेबल लगे हुए हैं।

- यह सुनिश्चित करें एलर्जन विषयक इस जानकारी को कहाँ पर संग्रह किया गया है और किस तरह से रखा गया है, इससे स्टाफ अवगत हो।
- सुनिश्चित करें कि एलर्जन विषयक जानकारी अद्यतन रहती है (उदाहरण के तौर पर, यदि रेसपियाँ बदली जाएं या किसी वैकल्पिक उत्पादों का प्रयोग किया जाए)
- डिलीवरी हमेशा चेक करें ताकि आप तय कर सके कि जो चीज़ें ॲडर्डर की गयी थीं, बिलकुल वही डिलीवर हुई हैं। सुनिश्चित कर लें कि लेबल की संबद्ध जानकारी प्रस्तुत की गयी है या ॲडर्डर के साथ उपलब्ध है।
- अपनी जानकारी के स्रोत तक वापिस पहुँचने के लिए यह सुनिश्चित करें कि सभी रेकॉर्ड अद्यतन किए गए हैं।
- चेक करें कि जो खाय पदार्थ डिलीवर हुए हैं वे प्रायः हमेशा प्रयोग किए जाते ब्रांड के ही हैं, क्योंकि संभव है कि अलग अलग ब्रांड में अलग अलग सामग्री शामिल हो।

# एलर्जन विषयक जानकारी कैसे प्रस्तुत करें

अपने ग्राहकों को एलर्जन विषयक जानकारी प्रस्तुत करने के कई तरीके हैं। आपके कारोबार के लिए तथा जिस प्रकार के खाद्य पदार्थ आप पेश करते हैं उसके हिसाब से आपको चयन करना होगा कि कौन सा तरीका श्रेष्ठ है।

## स्टाफ को प्रशिक्षित तथा अवगत रखें

खाद्य कारोबारों को कम से कम यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके सभी स्टाफ एलर्जन विषयक जानकारी की हर माँग को सुलझाने के संबंध में कारोबार के प्रबंध तथा नीतियों के बारे में अवगत हैं। स्टाफ के प्रत्येक सदस्य को काम शुरू करने के पहले ही दिन से एलर्जन विषयक जानकारी की माँगों को कैसे सुलझाया

जाए इसके बारे में कुछ न कुछ प्रकार का प्रशिक्षण अवश्य उपलब्ध कराना चाहिए।

खाद्य कारोबार होने के नाते यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जो बेच रहे हैं, उन खाद्य पदार्थों में कौन-कौन सी एलर्जनिक सामग्री मौजूद है, यह आपको पता होना चाहिए। जहाँ आपके पास खाद्य पदार्थों का समूह हो, जैसे ग्लूटेन युक्त अनाज एवं मेवे, तो आपको यह बताना आवश्यक होगा की वे कौन कौन से हैं: उदाहरण के तौर पर, गेहूँ और बादाम।

सुनिश्चित करें कि एलर्जन विषयक जानकारी स्टाफ के सभी सदस्यों को आसानी से उपलब्ध है तथा वो जानकारी अद्यतन रहती है। यदि आप अंशतः तैयार सामग्री का प्रयोग करते हैं, तो यह



सुनिश्चित करें कि उसमें जो शामिल है, वो आपको पता है और यह भी तय कर लें कि वे स्पष्ट रूप से लेबल पर निर्दिष्ट किए गए हैं। खाने की चीज़ों को छूने में और बनाने में एलर्जीनों का परस्पर संदूषण (क्रोस-कंटामिनेशन) होने के खतरे से सावधान रहें।

## एलर्जन विषयक जानकारी के लिए संकेतक उपलब्ध करना (साईनपोस्ट करना)

जहाँ पर एलर्जन विषयक जानकारी अग्रिम तौर पर प्रस्तुत नहीं है, वहाँ ग्राहकों को ये कहाँ से पाई जा सकती है, यह सूचित करने के लिए संकेतक उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

आपका सूचक वहाँ पर होना चाहिए, जहाँ से ग्राहकों यह जानकारी पाने की अपेक्षा कर सकते हैं; उदाहरण के तौर पर, जहाँ वे खाना ऑर्डर करते हैं, जैसे कि टिल पोईट, मेन्यू बोर्ड पर या मेन्यू पर।



## एलर्जन विषयक लिखित जानकारी

ये मेन्यू पर, मेन्यू बोर्ड पर या ऑनलाइन विक्री की वेबसाईटों पर प्रस्तुत किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर:

- चिकन कोर्मा – इसमें शामिल है: दूध, बादाम (मेवे)
- केरट केक (गाजर का केक) - इसमें शामिल है: दूध, अंडे, गेहूँ, अखरोट

## एलर्जन मेन्यू फोल्डर्ज़

एलर्जन मेन्यू फोल्डर्ज़ जिसमें शामिल हैं:

- उत्पाद विवरण-पत्र
- सामग्री के लेबल
- पेश व्यंजनों की रेसपि या तालिका और एलर्जन सूची से ग्राहकों को एलर्जन विषयक जानकारी सूचित करने में या प्रकट करने में सहायता मिलती है।

## ग्राहकों को एलर्जन के बारे में बताना

ऊपरोक्त तरीकों के साथ साथ एलर्जन विषयक जानकारी ग्राहकों से बातचीत द्वारा भी दी जा सकती है। आप अपने निजी तरीकों से भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो जानकारी पेश की गयी है, वो सही एवं सुसंगत है।

पेश किए जाने वाले व्यंजनों तथा उनमें शामिल एलर्जीनों की तालिका का उदाहरण

व्यंजन	भूजूँड़ी व्यंजन	असर्वेश्वर	झंग	अच्छी	मैट्रोफ्टी	भौयावीज	तेप्प	मैरे (बांधें)	मैरे	मस्टर्ड (जर्सी-यूडेर)	तिक्का (सेसमी)	मन्युक्टुर्टम्	तेप्पीच	अंबेस्क
चिकन कोर्मा								✓	✓ बादाम					
सीफूड रिसोट्टो		✓		✓			✓		✓					✓
लेमन चीज़केक	✓ गेहूँ		✓				✓							✓

## असरदार संवाद

आपके स्टाफ, ग्राहक तथा आपके सप्लायरों के साथ असरदार संवाद यह सुनिश्चित करने में सहायता करेगा कि आपके ग्राहकों को बिलकुल सही जानकारी प्रदान की जाती है।

### महत्वपूर्ण

#### ग्राहकों को भी अपनी भूमिका निभानी होगी

जो कारोबार संकेतक द्वारा सूचित करता है कि उनके स्टाफ से बात करने से एलर्जी के बारे में जानकारी मिल सकती है, वहाँ ग्राहकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे जानकारी मांगे और अपने आहार की आवश्यकताओं के बारे में भोजन प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को बताएं।

याद रहे कि आप जो व्यंजन पेश करते हैं, उन्हें खरीदना और खाना है या नहीं, इसका आखिरी निर्णय करने के लिए ग्राहक उनमें शामिल एलर्जीनों के बारे में आपके द्वारा प्रस्तुत जानकारी का सहारा लेते हैं।

आपको बहुत सोच समझकर यह तय करना होगा कि किस तरह:

- आप एलर्जीन विषयक जानकारी की इन माँगों को सुलझायेंगे
- अपने ग्राहकों को जानकारी प्रदान करेंगे
- आपके स्टाफ की इस जानकारी तक पहुंच रहेंगी

## ग्लुटेन-मुक्त और बिना ग्लुटेन की सामग्री

यदि आप कहते हैं कि आप जो खाना परोसते हैं वह ग्लुटेन-मुक्त है, तो कृपया नोट करें कि इस विवरण को सख्त नियमों में लपेटा गया है। जो खाद्य पदार्थ आप ग्लुटेन-मुक्त घोषित करते हैं, इनमें 20mg/kg से ज्यादा ग्लुटेन नहीं होना चाहिए।

आप जो खुले खाद्य पदार्थ बेचते हैं, इनके बारे में यदि आप ग्लुटेन-मुक्त होने का दावा करते हैं, तो पहले सोच लीजिये कि क्या आपके पास क्रोस-कंटामिनेशन रोकने के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं मौजूद हैं या नहीं।

यदि आपकी प्रक्रियाओं की गारंटी नहीं दी जा सकती या वे पर्याप्त रूप से नियंत्रित नहीं किए जा सकते, तो ज्यादा वास्तविक विवरण की सोचें, जैसे कि NCGI अर्थात् ‘ग्लुटेन-युक्त सामग्री शामिल नहीं है’।

दोनों ही तरह से, आपसे जितना हो सके उतना क्रोस-कंटामिनेशन को रोकना आवश्यक होगा।

यदि आप अधिक ग्लुटेन-मुक्त मार्गदर्शन चाहते हैं, तो कृपया इस वेबसाइट पर पढ़ाएः [www.food.gov.uk/  
business-industry/allergy-  
guide/gluten/](http://www.food.gov.uk/business-industry/allergy-guide/gluten/)

# गंभीर एलर्जिक रिएक्शन की परिस्थिति को संभालना

जब किसी व्यक्ति को किसी खाद्य पदार्थ से एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, उस समय क्या करना चाहिए ये सभी स्टाफ सदस्यों को मालूम होना अत्यावश्यक है।

## अति महत्वपूर्ण

### चेतावनी के संकेत

किसीको एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है यह हमेशा स्पष्ट रूप से पता नहीं चलता, क्योंकि अन्य गंभीर अवस्थाओं के लक्षण भी ऐसे हो सकते हैं। परंतु इन लक्षणों के लिए सतर्क रहना चाहिए, अगर पीड़ित व्यक्ति को सांस लेने में मुश्किल हो रही हो, उनके होंठ या मुँह पर सूजन आ गई हो या वह बेहोश हो जाए।

यदि ऐसा हो जाए जो ऊपर बताया गया है, तो आपको ये करना चाहिए:

- ग्राहक को हिलाएं नहीं, क्योंकि इससे उसकी हालत और अधिक बिगड़ सकती है।

- 999 को शीघ्र ही फोन करें और जो कुछ हो रहा है उसका वर्णन करें; ये बताएं कि आपको लगता है कि ग्राहक को शायद गंभीर एलर्जिक रिएक्शन या एनाफिलेक्सिस हो रहा है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप एनाफिलेक्सिस शब्द का प्रयोग अवश्य करें ताकि इस शब्द से परिस्थिति की अत्यावश्यकता निश्चित रूप से जाहिर होगी और सही दवा उपलब्ध करायी जाएगी।
- ग्राहक से पूछें कि उनके पास एड्रेनालीन पैन है और अगर जरुरत हो तो इसे निकाल पाने में उनकी सहायता करें। यदि कोई स्टाफ मेम्बर या फर्स्ट एड जानने वाला हाजिर हो जिसने एड्रेनालीन देना सीखा हो और ग्राहक को अपने आप लेने में मुश्किल हो रही हो, तो उनकी सहायता करने की पेशकश करें।
- किसी को एम्बुलेंस की राह में बाहर खड़ा रहने को भेजें और आप ग्राहक के पास रहें जब तक कि एम्बुलेंस न आ पहुँचे।

# एलर्जेन विषयक जानकारी संबंधित व्यवहारः आपके लिए शीघ्र जाँच-सूची

1. यदि आप से कोई पूछे कि किसी खाद्य पदार्थ में कोई खास सामग्री शामिल है या नहीं, तो हमेशा हर बार चेक कीजिए – कदापि अनुमान न लगाएं।
2. यदि आप कोई खाद्य पदार्थ बेच रहे हैं जिसमें एक या इससे अधिक एलर्जेनिक सामग्री शामिल हैं, तो कार्ड, लेबल, तालिका (चार्ट) या मेन्यू पर इसकी सूची बना लें – और यह सुनिश्चित कर लें कि यह जानकारी अद्यतन रखी गयी है तथा बिलकुल सही है।
3. पूर्व से तैयार (रेडीमेड) खाने जिनका आप प्रयोग करते हैं (जैसे रेडीमेड सैंडविच फिलिंग), तो उनकी सामग्री की जानकारी अद्यतन रखें। साधारणतया सामग्री की सूची लेबल पर या इनवॉयस में होती है।
4. जब आप व्यंजन पका रहे हैं तो उसमें प्रयोग की गई सभी सामग्रीयाँ जैसे कि खाना पकाने के तेल, ड्रेसिंग्स, टापिंग्स, सॉस और सजावट (गार्निश) (और उनमें क्या-क्या सम्मिलित हैं) इन सब का रिकॉर्ड बना के रख लें।
5. यदि आप किसी व्यंजन की सामग्री में बदलाव करें तो सामग्री की जानकारी को सुधार के इसे सामयिक (अपडेट) करना और अपने स्टाफ को इस बदलाव के बारे में अवश्य बताना सुनिश्चित करें।
6. यदि आप से कोई किसी खास सामग्री डाले बगैर खाना पकाने को कहे, तो यूँ ही हाँ मत कहे देना सिवा इसके कि आप यह पूरी तरह से सुनिश्चित कर सकेंगे कि उस खाने में वह सामग्री किसी भी रूप में बिलकुल शामिल नहीं होगी।
7. यदि आप किसी एलर्जी से पीड़ित व्यक्ति के लिए खाना बना रहे हैं तो यह सुनिश्चित कर लें कि कार्यस्थल एवं उपकरणों को संपूर्णतः साफ किया गया है। खाना बनाने से पहले अपने हाथ धोकर एकदम साफ कर लें। खतरों को नियंत्रण में रखें।

## फूड एलर्जी से पीड़ित ग्राहक को खाना पेश करना



## अधिक जानकारी

- एलर्जन विषयक अधिक जानकारी एवं स्रोत यहाँ पर उपलब्ध है  
[www.food.gov.uk/allergen-resources](http://www.food.gov.uk/allergen-resources)
- निशुल्क ऑनलाइन एलर्जन ट्रेनिंग यहाँ पर उपलब्ध है:  
<http://allergytraining.food.gov.uk/>
- खाय पदार्थों के प्रति एलर्जी एवं असहिष्णुता के बारे में जानकारी और सलाह के लिए फूड स्टॅंडर्डज एजन्सी की वेबसाइट पर पढ़ारे:  
[www.food.gov.uk/allergy](http://www.food.gov.uk/allergy)
- दी ईयू फूड इन्फोरमेशन फोर कंज्यूमर्ज रेग्युलेशन 1169/2011 (ग्राहकों के लिए EU के खाय विषयक सूचना विनियम 1169/2011) के बारे में जानकारी के लिए इस वेबसाइट पर पढ़ारे:  
[http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/index_en.htm)
- ग्लूटैन विषयक जानकारी के लिए सीलीएक यूके की वेबसाइट पर पढ़ारे:  
[www.coeliac.org.uk](http://www.coeliac.org.uk)

यह पत्रिका निम्नलिखित संस्थाओं के सहयोग में प्रस्तुत की गयी है:



एलर्जी यूके  
टेलिफोन: 01322 619898  
इमेल: [info@allergyuk.org](mailto:info@allergyuk.org)  
वेब: [www.allergyuk.org](http://www.allergyuk.org)



एनाफिलेक्सिस कॅम्पैन  
संपर्क टेलिफोन: 01252 546100  
हेल्पलाईन टेलिफोन: 01252 542029  
इमेल: [info@anaphylaxis.org.uk](mailto:info@anaphylaxis.org.uk)  
वेब: [www.anaphylaxis.org.uk](http://www.anaphylaxis.org.uk)



ब्रिटिश होस्पिटालिटी एसोसिएशन  
टेलिफोन: 0207 404 7744  
इमेल: [bha@bha.org.uk](mailto:bha@bha.org.uk)

BRITISH RETAIL CONSORTIUM  
for successful and responsible retailing

ब्रिटिश रीटैल कन्सोर्टियम  
टेलिफोन: 020 7854 8900  
वेब: [www.brc.org.uk](http://www.brc.org.uk)



सीलीएक यूके  
टेलिफोन: 0845 305 2060  
वेब: [www.coeliac.org.uk](http://www.coeliac.org.uk)



फूड एन्ड ड्रिंक फेडरेशन  
टेलिफोन: 020 7836 2460  
वेब: [www.fdf.org.uk](http://www.fdf.org.uk)



फूड सोल्यूशन्ज  
टेलिफोन: 01572 812312  
इमेल: [bob@food-solutions.org](mailto:bob@food-solutions.org)

खाय पदार्थ के बारे में अधिक जानकारी और सलाह के लिए, या इस प्रकाशन को डाउनलोड करने के लिए फूड स्टांडर्डज एजन्सी की वेबसाईट [food.gov.uk](http://food.gov.uk) पर पढ़ाएं।

हम से कनेक्ट करें

- |  |  |
|--|--|
|  फेसबुक पर हमें पसंद करें      | <a href="http://food.gov.uk/facebook">food.gov.uk/facebook</a> |
|  हमारी गोष्ठी में शामिल हो     | <a href="http://food.gov.uk/twitter">food.gov.uk/twitter</a>   |
|  यूट्यूब पर हमें देखें         | <a href="http://food.gov.uk/youtube">food.gov.uk/youtube</a>   |
|  RSS द्वारा हमारे समाचार पाएं  | <a href="http://food.gov.uk/rss">food.gov.uk/rss</a>           |
|  ईमेल द्वारा हमारे समाचार पाएं | <a href="mailto:food.gov.uk@email">food.gov.uk@email</a>       |

हमारे संपर्क विषयक जानकारी अपने स्मार्टफोन में आसानी से संग्रह करने के लिए हमारे QR vCard को स्कैन करें।



© क्राउन कापीराईट 2015 इस जानकारी स्रोत के प्रयोग व पुनः प्रयोग के बारे में कुछ भी पूछताछ करने के लिए इस पते पर ईमेल करें:  
[psi@nationalarchives.gsi.gov.uk](mailto:psi@nationalarchives.gsi.gov.uk)  
फूड स्टांडर्डज एजन्सी द्वारा मार्च 2015 ईंगलैण्ड में प्रकाशित  
FSA/1735/0614



इस प्रकाशन से निपट जैसे के बाद, कृपया  
इसे रिसाइकिल करें